

ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल

विषय-हिन्दी

कक्षा-4

Assignment जून 2021-22

प्रश्न-1 निम्न गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। प्रकृति सदैव अपने रंग-रूप में परिवर्तन करती रहती है और यही परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यही कारण है कि भारतवर्ष में छः ऋतुएँ होती हैं। सभी ऋतुओं का अपना-अपना महत्त्व है और सभी की अपनी-अपनी शोभा है परंतु वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत और ग्रीष्म में से वसंत ऋतु का विशेष महत्त्व है। ग्रीष्म अपने भयंकर ताप से पृथ्वी को तपाता है तो वर्षा अपने ठंडे-ठंडे जल से धरती की प्यास बुझाती है। शरद और हेमंत अपनी सर्द हवाओं से कंपन उत्पन्न करती हैं। शिशिर पेड़-पौधों के पत्तों को ही झटक लेता है। इसके विपरीत वसंत सर्वत्र सौंदर्य और उल्लास बिखेरकर मानव के मन को प्रसन्नता व उमंग से भर देता है। फाल्गुन और चैत्र के दो महीने वसंत ऋतु के होते हैं। वसंत ऋतु में न अधिक गरमी होती है, न अधिक सरदी। जलवायु भी बहुत सुहावनी होती है।

- (क) भारत में कितनी ऋतुएँ होती हैं एवं ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है?
- (ख) वसंत ऋतु के कौन-से दो महीने होते हैं?
- (ग) किस ऋतु में पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं?
- (घ) निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएँ।
उमंग , परिक्रमा

प्रश्न-2 निम्न प्रश्नों के उत्तर दें।

- (क) कृष्णशंकर मास्टर का स्वभाव कैसा था ?
- (ख) खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक कैसे है ?
- (ग) अमृत ने महामंत्री को बुलाकर अपनी कौन-सी योजना बताई ?
- (घ) अमृत और अनिरुद्ध में से किसने गुरु की बातों को मानते हुए जन कल्याण हेतु कार्य किया ?

प्रश्न-3 अर्थ के आधार पर निम्न शब्दों के भेद लिखिए ।

पर्वत , हिमालय, कड़स, पुस्तकालय, वोटी, तछ

प्रश्न-4 नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य एवं विधेय छाँटकर लिखिए ।

- (क) निर्धन बालिका भूख से व्याकुल है ।
- (ख) हम कल नागपुर जाएँगे ।
- (ग) कल्पना चावला अंतरिक्ष-यात्रा पर गई थीं ।
- (घ) दादी जी पढ़ा रही हैं ।

प्रश्न-5 'शिक्षक दिवस' विषय पर 80-100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखें ।

प्रश्न-6 माता जी को परीक्षा परिणाम की सूचना देते हुए पत्र लिखिए ।